

अप्रैल 2020

1. बिहार में कछुआ पुनर्वासन केंद्र बनाया गया है जो अपनी तरह का पहला केंद्र है

- जनवरी 2020 में, बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में मीठे पानी के कछुओं के लिए अपनी तरह का पहला पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। आधा हेक्टेयर में फैला हुआ यह पुनर्वास केंद्र एक समय में 500 कछुओं को आश्रय देने में सक्षम होगा।
- वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बचाव दल द्वारा तस्करों से बचाए जाने के दौरान कई कछुए गंभीर रूप से घायल और बीमार पाए गए इस तरह के बीमार कछुओं के लिए इस तरह के केंद्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई।
- हालाँकि, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के संयुक्त रूप से तैयार किये गए रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ये प्रजातियाँ अब बांधों



Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription
(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests

और बैराज, प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल के माध्यम से दुर्घटनावश डूबने और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण गंभीर खतरे में हैं।

2. बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार संयुक्त राष्ट्र के जलवायु गोलमेज़ में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल हुए

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयोजित 'क्लाइमेट एम्बिशन' पर आभाषी वैश्विक गोलमेज़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के जलवायु परिवर्तन शमन के लिए जल संरक्षण और जल जीवन हरियाली (JJH) मिशन के अन्तर्गत हरियाली पहल पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने 2050 तक वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस (पूर्व-औद्योगिक स्तर) से नीचे लाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध को दोहराया।
- 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन को कार्बन प्रच्छादन (कार्बन उत्सर्जन शून्य करना) के बराबर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. "हैलो सखी चैन", कोरोनावायरस से लड़ने के लिए एक जागरूकता अभियान है



Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription

(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests

- मुज़फ़्फ़रपुर की दर्जनों ग्रामीण महिलाएँ अपनी 'हैलो सखी चैन' के ज़रिए, इस बीमारी से बचने के लिए रोज़ाना सैकड़ों परिवारों को जागरूक कर रही हैं।
 - इन गांवों की महिलाओं ने कोविड -19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 'हैलो सखी चैन' बनाई है। इस श्रृंखला के माध्यम से, कोई महिला एक दिन में 20 से 30 परिवारों के कुशल-क्षेम के बारे में पूछती हैं।
 - इन महिलाओं ने मैथिली, भोजपुरी, बजाजिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता गीतों की रचना की है। इन गीतों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है और मोबाइल फोन के माध्यम से भी लोगों से बात कर जागरूक कर रहे हैं।
4. रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता, को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया
- रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर से हैं।
 - कुमार, 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया, इस दौरान



Gradeup Bihar State Exams Green Card Subscription

(BPSC, Bihar SI, Bihar SSC etc.)

Get unlimited access to all 40+ mock tests

उन्होंने बालाकोट पर वायु सेना का हमला (एयर स्ट्राइक), जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति को निपुणता के साथ वयक्त किया।

5. कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल देवानंद कौंवर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

- देवानंद कौंवर 24 जुलाई, 2009 से 8 मार्च, 2013 तक बिहार और 25 मार्च, 2013 से 29 जून, 2014 के बीच त्रिपुरा के राज्यपाल रहे।